



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 अग्रहायण, 1941 (श०)

संख्या- 1049 राँची, गुरुवार,

19 दिसम्बर, 2019 (ई०)

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

#### संकल्प

17 दिसम्बर, 2019

**संख्या-5/आरोप-1-45/2016-27384 (HRMS)--** श्री राजीव कुमार, झा0प्र0से0, (चतुर्थ बैच, गृह जिला-साहेबगंज), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मेहरमा, गोड्डा-सह-निर्वाची पदाधिकारी के विरुद्ध निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-686, दिनांक 31.03.2016 के माध्यम से जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक-1230, दिनांक 10.02.2015 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र-‘क’ में श्री कुमार के विरुद्ध आरोप प्रतिवेदित किया गया है कि श्री कुमार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2015 में घोर लापरवाही एवं निर्वाचन जैसे अतिमहत्वपूर्ण कार्य के प्रति गहरी उदासीनता बरती गई, परिणामस्वरूप मेहरमा प्रखण्ड के ग्राम पंचायत सिघाड़ी के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0-7, जो अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित था, पर पुरुष के द्वारा नामांकन किया गया, जिसके नामांकन को अस्वीकृत कर दिया गया था, परन्तु पुरुष उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह आवंटित हो गया तथा मतपत्र छपने चला गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-4815, दिनांक 08.06.2016 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री कुमार द्वारा पत्रांक-15, दिनांक 17.06.2016 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा पहला चुनाव होने एवं अपनी भूल स्वीकार करते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-6608, दिनांक 29.07.2016 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गई तथा मंतव्य अप्राप्त रहने पर इसके लिए स्मारित भी किया गया। उक्त के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-919, दिनांक 05.09.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री कुमार को निर्वाचन प्रक्रिया में भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी देते हुए इस आशय की प्रविष्टि इनके सेवा इतिहास में करने की अनुशंसा की गई।

अतः समीक्षोपरांत, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री कुमार को इस मामले में भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RAJIV KUMAR 111003186505	श्री राजीव कुमार, झा0प्र0से0, (चतुर्थ बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मेहरमा, गोड्डा को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अशोक कुमार खेतान,**  
सरकार के संयुक्त सचिव।  
जीपीएफ  
संख्या:BHR/BAS/2972

-----